

JINDAL LEASEFIN LIMITED

110, BABAR ROAD, (Opp. World Trade Centre)

NEW DELHI - 110 001 INDIA • CIN : L74899DL1994PLC059252

TEL. : 91-11-46201000 FAX : 91-11-46201002

E-mail : jindal@jindal.bz Website : www.jindal.bz

22.05.2019

To,
Corporate Relations Department
Bombay Stock Exchange Limited
Floor 25, P J Towers
Dalal Street, Mumbai-400001

SCRIP CODE: 539947

SUB: IN COMPLIANCE OF REGULATION 47(1) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIRMENTS) REGULATIONS 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisements regarding notice of Board Meeting to consider various agenda items which inter alia includes to consider, approve and take on record the audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31st, 2019 alongwith Statutory Auditors' Report thereon and to consider recommendation of Dividend, if any, for the financial year 2018-19.

You are kindly requested to take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

FOR JINDAL LEASEFIN LIMITED

FOR JINDAL LEASEFINE MINITED

Company Secre

Raini

COMPANY SECRETARY

ENCL: A/A

यौन उत्पीड़न के आरोपी पायलट को एअर

स्तरहारा युवित किया जाता है कि कंपनी के अंकेक्षित विन्तीय परिणामों पर विवार करने के लिए

पंगलवार 28 मर्ड 2019 को 127-128 निभ्वन कॉण्प्लैक्स इंध्वर नगर नई दिल्ली-110065 में आयोजित की जाएगी। पशुपति फिनकैप लिमिटेक के लिए

JINDAL LEASEFIN LIMITED (CIN: L74899DL1994PLC059252) Regd Office: 110, Babar Road, New Delhi-110001; Tel.: 011-46201000 E-mail: jindal@jindal.bz

रिनांक 21 05 20 19

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, May 30" 2019 at 4:00 p.m. to consider and approve Audited Financial Results of the Company for he quarter/Financial Year ended March 31" 2019. The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.jlltd.in and the website of the stock exchange at

For Jindal Leasefin Limited

Date: May 21, 2019 Surender Kumar Jinda

http://www.bseindia.com.

APEX एपेक्स कैपिटल एवं फाईनैंस लिमिटेड (पूर्व में एपेक्स होम फाइनेंस लिमिटेड) सीआईएन: L65910DL1985PLC021241 **राजी, कार्यालय:** एल-3, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन,

नई दिल्ली-110016 ई-मेल आईडी: contact@apexfinancials.in वेबसाइट: www.apexfinancials.in टेलीफैक्स: +91-11-4034 8775

सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि सेवी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 की विनियम 29 एवं विनियम 47 के अनुपालन हेत् एपेक्स कैपिटल एवं फाईनैंस लिमिटेड (पूर्व में एपेक्स होम फाइनेंस लिमिटेड) कम्पनी) के निदेशक मंडल की बैठक दिन बृहस्पतिवार, मई 30, 2019 को शाम 4,00 बजे, कम्पनी के कार्यालय एल-3, ग्रीन पाक एक्सटेशन, नई दिल्ली-110016 में, मार्च 31, 2019 को समाप्त कम्पनी के तिमाही तथा वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु आयोजित की जायेगी।

उपर्यंक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.apexfinancials.in पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते एपेक्स कॅपिटल एवं फाईनैंस लिमिटेड

कंपनी संक्रेटरी

दिनांक: 21.05.2019 ICSI M. No. ACS-20850

प्रारुप संख्या आईएनसी-25 क क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

41 के मामले में

एसएनके मेकट्रॉनिक्स लिमिटेड

(CIN: U74899DL1995PLC065622) जिसका पंजीकृत कायांलय : **विजय टॉवर, पहली मॅजिल,** 252ए शाहपुर जाट, पंचशील पार्क कमर्शियल काम्प्लेक्स के सामने, नर्डे दिल्ली-110049 में स्थित है, के मामले में, राम जनता को सचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे

रंपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए दिनांक **15 अप्रैल** 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमी के साथ पटित कंपनी अधिनियम 2013 की पारा 4 के अधीन आवेदन किया है। हंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण, यदि किसी

वक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है. तो वह व्यक्ति इसका कारण देते हुए आपत्ति इसफनामा में उल्लेख करते ए, जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, इस सचन ह छपने के बीदह दिनों के भीतर मेजीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक डारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को उपरोक्त पंजीकत कार्यालय विजय टॉवर, पहली मंजिल, 252ए शाहपुर जाट, पंचशील पार्क कमर्शियल काम्प्लेक्स के सामने, नई दिल्ली-110049 में भी

एसएनके मेकट्रॉनिक्स लिमिटेड तिथि: 21.05.2019 संजय कुमार तिवारी (निदेशक) DIN:07973036

फॉर्म नं. आईएनसी-25ए सार्वजनिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में रूपांतरण के लिए समाचार पत्र विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, निगमित मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 14 और कंपनीज (समावेश) नियम, 2014 के नियम 41

नैम क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कंस्लटेंट्स लिमिटेड इसका पंजीकृत कार्यालय 213, अरूणाचल बिल्बिंग, 19, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 .आवेदक एतदद्वारा सर्वसाधरण को सुचित किया जाता है कि कंपनी ने ऐसे रूपातरण को प्रभावित करने में कंपनी को सक्षम करने के लिए 15.04.2019 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रूपातंरण करने की इच्छ्क है और उपरोक्त नियमों के साथ कंपनीज अधिनियम, 2013 की

धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन

कोई व्यक्ति जिसकी अभिरूचि कंपनी के इस प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति से प्रभावित होती हों, तो वह अपनी अभिरूचि की प्रकृति और विरोध के आधार, यदि कोई है, द्वारा समर्थित हलफनामें द्वारा समर्थित अपने विरोध को आवेदनकर्ता कंपनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर इसकी एक प्रति के साथ इस स्चना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विग, दसरी मंजिल, पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को भेज या डिलीवर कर सकते हैं।

213, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001 आवेदक की ओर से व उन्हीं के लिए

हस्ता. / -(किरण गोयल) दिनांकः 21.05.2019 स्थानः नई दिल्ली डीआईएनः 00503357

EON ELECTRIC LIMITED CIN: L31200HR1989PLC035580

Registered Office: 1048, Sector-14, Sonepat - 131001, Harvana, India MANAGEMENT Corporate Office: B-88, Sector-83, Noida-201305, Uttar Pradesh, India ****************** P: +91-120-3096700 W: www.eonelectric.com E: corporate@eonelectric.com

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI Listing Obligations and Disciosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Eon Electric Limited shall be held on Wednesday, the 29th day of May, 2019 at New Delhi, to consider and approve standalone and consolidated Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended on March 31, 2019.

he Notice is also available on the website of the Company at www.eonelectric.com as well as on the websites of Stock Exchanges - The BSE Limited at www.bseindia.com and The National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि.

(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथ्रुट चेम्बर्स, बैनर्जी

रोड, कोच्चि — 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमाष:

+91 484-2396478, 2394712, 바라: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com,

www.muthootfinance.com निम्नलिखित खातों के संबंध में उपलब्ध आभूषणों की

पताः 2nd Floor, S.C.O No. 22, Huda Shopping Complex, Sector-14, Old Delhi Road,

ऊपर दिखाए गए ऋण खातों के संबंध में नीलामी पूर्वोक्त शाखा में आयोजित की

जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी

सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल,

लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली – 110024

नोंट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का

भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी

auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर

Shiv Kumar Jha

Place: Noida Date: May 21, 2019

नीलामी करेगीः

ऋणियाः Vipin Bhola

Gurgaon, Haryana - 122001

नीलामी की तिथिः 27.05.2019

Company Secretary & Compliance Officer

सार्वजनिक सूचना

Gurgaon-I Branch: Account No. GL-1989, 2021, 2159, 2161, 2164

जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

न्तर-कृत काषावाय : 118, ऊपरी प्रथम् तल, प्रकाश दीप भवन, 7, टॉल्स्टाच मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 25353051, 23353052, फैक्स : 91-11-23310639, 23359550, श्राप्तावाड ईमेल : info@ansalabl.com चेनसाइट : www.ansalabl.com CIN No.: L45201DL1983PLCO17225

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनिमय 2015 के अधिनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में, कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 30 मई, 2019 को कान्फ्रेंस रूम, 118, यूएफएफ, प्रकाशदीप भवन, 7, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं समाप्त वर्ष हेत् अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार (स्टैंडअलोन और समेकित) कर उसे अनुमोदित किया जाएंगा और समाप्त वित्तीय वर्ष 2018.2019 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर लागांश यदि कोई हो की सिफारिश की जाएगी।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.ansalabl.com के साथ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

अंसल बिल्डवेल लि. के लिए हस्ता./-(अशोक बाब्)

सार्वजनिक उद्योषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया पंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया)

विनियपन, 2016 के विनियपन 6 के अंतर्गत]

मैं. भोला बाबा एक्जिम प्राहंबेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

5 9 2005

कांपीट ऋषधरक के पंजीकृत कामांतम तथा|पंजीकृत कामांतक: ए-११, वजीत्पुर क्रीचीपिक क्षेत्र, वह दिर

दिवाला प्राताव प्रतिस्थ के समापन को अनुभारित लिथि 12 नवण्यर, 2019 जो 16 मई, 2019 से 130 दिन होता है

प्राताच अभिरुपत का नार, पंजीकरण संदूष, जो नामःविवेक लोजा, अंजी मं 188MPA.001/IP.P00055/

🤊 बीर्ड में मज पंजीवृत अंतरिम प्राताव प्रांकेश्यत का बामः विवेक लोजा, पंजी 😈 1881/IPA 001/IP-P00055/

10 अंतरिय प्रस्ताव प्रांकेश्यत के साथ प्रवाकार के लिये विवेक लोगा, जोडी-20ी, 20 वल, भीत्रपपुर, वर्ड दिल्ली-

एतरहाए एडित किया जात है कि एम्ट्रोम कम्पनो विधि अधिकाम ने 16 मई, 2019 को मैं भोज़ जाजा एकिनम पहुँचेट

निष्टिंड के ग्रेटर्भ में कॉपीर इन्सन्तेनमें प्राताय प्रक्रिया शुरू कर रे कर आदेश दिया है। एनदुबार में भीना बाबा एकिनम

प्राईवेट लिपिटेड के केडीटरी को निर्देश दिया जाता है कि पद एं. 10 में वर्षित पढ़े पर अवस्मि प्राताव प्रफिशनल के पाए

फार्नारिक्त के डोटर्र केवल र्लेक्ट्रॉनिक पद्धित से हो अपने ठावे का प्रमाण जाम कर सकते हैं। अन्य सभी केडोटर्र व्यक्तिगत.

प्रथिष्टि सं. 12 के एमध्र मधा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित विज्ञीम क्रेडीटर प्रपत्न सीए में वर्ग के प्राप्तिक प्रतिनिधि के

द्यंचे का प्रमाण भारत दिवाला तथा दिवालिमा मंडल (कॉपीरेट व्यवितमी के लिमे दिवाला प्राताव प्रक्रिया) विरिम्मयन,

2016 के वैप्रा∨ के अनुगर जब किया जमेगा। तुने का प्रमण रिप्प विपिर्हिप प्रपन्ने में जबा किये जा एकते हैं।

रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि एं. 15 में वर्षित एवधिव प्राधिकृत प्रतिनिध की अपनी परांद को दर्शाएं।

तिथि है 14 दिन)

कांभीटि ऋजभारक के संदर्भ में दिवादक आरंभ कीने 16 मई. 2019 (सी भी नं (IB)-854/(ND)/2019 में

एगर्गएलटी के अब्देश लिथि 16 मई. 2019 के अनुसार

(अर्द्अप्ती से 18 पई. 2019 की एकम भ्राप्त हुई तथा

एनसीएलटी की वेबागईट पर 20 मई. 2019 को आदेश अपनीष्ठ

2017.18/10133, पताः बोडी-2सी, 2स तत्त, भीतपपुरा, प

2017-18/10133, पताः जेडी-2सी. 2स ततः पीतपपुरा, वर्ष्

01 जून, 2019 (इन्सॉल्बेन्सी ऑफेटरल की रिमृक्ति की सुकना की

संबंधित प्रथम https://ibbi.gov.in/ downloads पर उपलब्ध

चित्रती - 110034. ई-मेराः शास्त्रक@शृह्यः.m

दिल्ली-110034, ई-मेलः शास्त्रिक्ष्याः,n

1 10034 . ई-पेकः १९७५का @gmail.com

वह प्रधिकरण जिएके अंतर्गत कांगील ऋगधारक कम्पनी र्वजासूर- दिल

वर्गपीट पहचार संख्या। वर्गपीट ऋषधारक का US 1909 DL2005PTC 140357

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 20 मई, 2019

कांपीटि ऋगधारक का राम

लिपिटेड लाउँबलिटी पहचार संद्वमा

अंतरिय प्राताव प्रांकेश्यल के रूप में कार्यात 🕏

(७६) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिय प्राताः।

कार्य कार्य के लिने पहतान किने गर्म इन्सॉस्केन्सी

प्रॉफेश्नक का जम (प्रत्येक कर्ग हो होत जम)

13 किएों वर्ष में के छोट एं के प्राधिकत प्रतिनिधि के रूप में लाग नहीं

(छ) प्राधिक्त प्रतिविधिमों का विवरण उपलब्ध है है।

01 जुन, 2019 को मा उससे पूर्व अपने ठावे का प्रमाण जमा करें।

छक द्वारा अध्या इकेक्ट्रोनिक पाध्यमों से अध्ये दाये का प्रमाण जमा का सकते हैं।

पपत बी: कर्पिमों तथा कर्पकारियों को छोड़कर ऑपरेशनल केडीटाई द्वार ठाउँ

12 केडीटर का वर्ष मदि कोई हो, धार 21 की उप धारा वर्ग (में) का गमः मिल

प्रधान कर्मातम का पता

11 उर्ज जमा करने की ऑक्स लिथि

14 (क) एंबॉधत प्रथा तवा

9पत्र सी: वितीय केडीटरों द्वार दावे

तिथि: 21.5.2019

स्थानः नई दिल्ली

प्रांकेश्वल द्वारा एचिश्चित किया गर्म

वरि.वी.पी. एवं कम्पनी सचिव FCS No.: 2328

(भारत सरकार का उद्यम) तकनीकी और अपतटीय सेवा प्रभाग, 05 वीं मंजिल, शिपिंग हाउस, 245,

भारतीय नोवहन निगम लिमिटेड

w मैडम कामा रोड, मुंबई - 400 021 (भारत) • वेबसाइट: www.shipindia.com • Twitter: @shippingcorp • सीआईएन : L63030MH1950GOI008033

इ-टंडर: 9000017893 एमओडीय पर रिग मैनिंग की व्यवस्था के लिए उप-ठेकेदार की नियुक्ति

"सागर विजय" और "सागर भूषण" नामक एमओडीयू पर नियमित रूप से अथवा कॉल आउट आधार पर नियमित समुद्री मैनिंग के अलावा मैनिंग व्यवस्था के लिए प्रतिष्ठित मैनिंग ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए

www.shipindia.com या www.eprocure.gov.in पर विज़िट करें. भाग लेने वाले बोलीदाताओं को ई-टेंडर के माध्यम से ही अपने प्रस्ताव हमारी वेबसाइट https://etender.sci.co.in का उपयोग करके 12 जून 2019 को

1700 बजे तक प्रस्तृत करने होंगे كبيب للنبتك فيحد فسنت فلنبتك فيبيث فيحد فست

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए. जीवन को राह दिखाए

प्रयत्र सं. 5 ऋण वस्ती न्यायाधिकरण

600 / 1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ-226007 (न्यायाधिकार क्षेत्र : उत्तर प्रदेश का भाग)

जवाब दाखिल करने तथा हाजिर होने के लिए प्रकाशन द्वारा सम्मन ओ.ए. सं. 1210/2018 दिनांक : 11-03-2019 (बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा

19(4) के साथ पठित वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रियाँ नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत प्रतिवादी को सम्मन)

पंजाब नैशनल बैंकआवेदक विरुद्ध

श्री विशाल गुप्ता एवं अन्य प्रतिवादीगण सेवा में.

1. श्री विशाल गुप्ता, वयस्क, पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता, निवासी 56, अपर ग्राखण्ड फलोर, जो ऐंड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली—110092 दुसरा पता : निवासी ए—27, विश्वकर्मा पार्क, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली—110082

तीसरा पता : स्वामी मैसर्स पी.जी. एंटरप्राइजेज, 08/4223, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, नई दिल्ली—110032 2. श्रीमती हीरा गुप्ता, वयस्क, पत्नी श्री विशाल गुप्ता, निवासी 56, अपर ग्राउण्ड

फलोर, जे ऐंड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092 दुसरा पता : निवासी डी-362, तृतीय तल, गली नंबर 14, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092

3. श्रीमती मीन्, वयस्क, पत्नी श्री राजेश सहदेव, निवासी 56, अपर ग्राउण्ड फलोर, जे ऍड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली—110092 उपरोक्त आवेदन में आप से यह सम्मन प्रकाशित होने के बाद अपना जावाब पेपर बुक रूप में, दो सेटस में, दस्तावेजों तथा शपथपत्रों (यदि कोई है) सहित, उसकी प्रति आवेदक को अथवा उसके कानूनी सलाइकार / विधिवत अधिकृत एजेन्ट को भेजने के बाद, व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेन्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से प्रस्तुत करने और उसके बाद इस न्यायाधिकरण में 04-06-2019 को पूर्वा. 10.30 बजे उपस्थित होने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की

सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

पशुपति एसपीपी एंड बरुयूवीपी नित्स ति.

CIN No: L74900HR1979PLC009789

टेनी: 47632200

पंजी, कार्यालयः बांव कपरीवास (कसरेका),

जिला. रेक्सी. श्रीरयपा

मुख्यनाय : 127-128. त्रिषुवन कॉम्प्नैक्स.

इंस्कर नगर, नई विकास-110055

रतरद्वारा सुवित किया जाता है कि कंपनी के

निरेशक पंडल और लेखा समिति की बैठक उ४००

2019 को समान्त तिमाड़ी व वर्ष के लिए कंपनी के

अंकेक्षित विल्लीय परिणामों पर विवार करने के लिए

पंगलवार 28 पर्व 2019 को 127-128 त्रिपुबन

कॉप्प्लैक्स ईश्वर नगर नई दिल्ली-11006% में

FRUITION VENTURE LIMITED

CIN: 174899DL1994PL0068824

Regd Office: 21-A, 3rd Floor Savitri Bhawan, Commerci

Complex, Mukharjee Nagar, New Delhi - 110009

Tel: +91-11-47027878 Fax: +91-011-47561818

Website: www.fvi.co.in.

Email: cstruitionventure@gmail.com

NOTICE

Pursuant to clause 41 of the listing Agreement, Notice

is hereby given that the Meeting of the Board of Directors

of the Company is scheduled to be held Wednesday

the 29th day of May, 2019 at the registered office of

the Company to inter alia consider and approve the

audited financial results of the Company for the guarter

भारत एकांश लिमिटेड

पं**जी. कार्यालय**ः मकानः नवर 116, एफ / एफ

ग्राम कोटला, मयुर विहार फेज-1, निकट हुकम

डेरी, दिल्ली-110091

सीआईएन : एल74899दीएल1985पीएलसी020973

फोन : 9355777335-36

वेबसाइट : www.bharatekansh.com

ई-मेल : bharat.ekansh.ltd@gmail.com

रतदद्वारा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड

सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए)

वेनियमावली, 2015 ("सूचीयन विनियमावली") व

वैनियम 29 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि

भारत एकांश लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक

बैठक बृहरपतिवार, 30 मई, 2019 को आयोजित

की जाएगी. जिसमें अन्य के साथ, 31 मार्च, 2019

को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष हेत् कम्पनी वे

जेखापरीक्षित विल्तीय परिणाम, ये परिणाम

नेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित किए जा चुके

तथा कार्यसची की अन्य मदें, विचारित एवं

इसके अतिरिक्त अंतरंगी व्यापार की रोकथाम हेत्

कम्पनी की आचार संहिता के अनुसरण में कम्पनी की

प्रतिभृतियों में संब्यवहार/ब्यापार के लिए ब्यापार

िखंडकी ('ट्रेडिंग विन्डों') कम्पनी के

निदेशकों / अधिकारियों / पदनामित व्यक्तियों के

लिए 23/05/2019 से 02/06/2019 तक (दोनों

स्गन्धा खंडेलवाल

एम. नंबर :- ए48323

कम्पनी संक्रेटरी

अनुमोदित की जाएंगी।

तिथियों सहित) बंद रहेगी।

तिथि : 21-05-2019

स्थान : दिल्ली

For and on behalf of the Board

Fruition Venture Limited

PAN: BQMPR4063F

Sd/-

(Richa)

& year ending March 31, 2019.

Place: New Delhi

पशुपति एसपीजी एंड कन्त्युवीजी

मिल्स के लिए

खनिनव त्याची

कंपनी समिव

आयोजित की जाएगी।

रिनांक 2009 2019

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 लिंक हाउस, 3 बहादूर शाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002 सार्वजनिक सूचना

मैं, आनन्द जी, सहायक महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया शाखा, नई दिल्ली, फोन नं. 011-23312472 सूचित करता हूं कि हमारी शाखा के कब्जे में रखे कुछ दस्तावेज जैसे 1. मूल कन्वेंस डीड दिनांक 18.07.1989, दस्तावेज सं. 6608 वॉल्यूम नं. 769, बुक नं. 1, एस.आर. फरीदाबाद, 2. श्री सुभाष चन्द्र जैन पुत्र श्री जी डी जैन के पक्ष में हुडा द्वारा जारी किये गये मूल अवंटन पत्र दिनांक 13.08.1981, कब्जा प्रमाणपत्र दिनांक 28.09.1987, मूल अधिवास प्रमाणपत्र दिनांक 24.08.1990, 2015—16 की अवधि के लिए मूल हाउस टैक्स रसीद दिनांक 22.09.2016 और सुभाष चन्द्र जैन के नाम पर मूल बिजली बिल दिनांक 25.11.2017 कहीं गुम हो गये हैं। यदि किसी व्यक्ति को मिलें तो कृपया उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें।

NEW ERA LEASING AND FINANCE LIMITED CIN: L67120DL1394PLC018900 Regd. Offica: 981 Aggarwal Millenium Tower-II, Netaji Subash Palace District Cantie Wazirpur, Opp. TV Tower, Petampura Dallh North West-110034 Email: neweraleasingfinance@gmail.com;

Wabsita: www.neweraleasingfinance;

Contact: 011-69999390

ADVANCE INTIMATION OF BOARD MEETING Notice is here by give nipuls uant to Regulation 29 read with Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 30th day of May, 2019, at 4:00 P.M. at 981, Aggarwal Mille in um Towe r II, Netaji Subashi Palace District Centre, Wazarpur,Opp. TV Tower, Pitampura Belli North West-110034 inter alia to consider, applove and take on record the Audited Financial Results of the Company for the

For New Era Leasing and Finance Limited

Rohtash Sharma (Director)

Quarter & Year ended on 31st March, 2019.

प्रपत्र सं. आइएनसी-26 कियनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार / प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपचारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियन

30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में टी आर इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड (U29111DL2004PTC126852) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : हॉल फर्स्ट पलोर.

प्रॉपर्टीज नं. डब्ल्यूजेड –1663 में से, नांगल राया,

नई दिल्ली-110046 में स्थित है

याचिकाकत आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 03.05.2019 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प

के संदर्भ में कंपनी के संघम झापन में संशोधन की

पुष्टि की मांग की गई हैं। कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित ख्यानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 विनो के भीतर यी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके चपराक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से टी आर इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

(लेजिंदर सिंह रथान : नई दिल्ली तिथि : 21.05.2019 डीआईएन : 01366273 न्यायालय निला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, लखनऊ संख्या-2272 / बीक रीडर-2018 नोटिस

मे0 सुशील अंसल फाउण्डेशन पंजीकृत कार्यालय 115, असंल भवन, 16, कस्तुरबा गाँधी मार्ग, न्यू दिल्ली द्वारा निदेशक। श्री सुशील अंसल पुत्र स्व. चिराँजी लाल, पता

26, फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली। श्री प्रणव असंल पुत्र सुशील अंसल, पता 26. फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली।

पंजीकृत कार्यालय 115, असंल भवन, 16, करत्रवा गोंधी मार्ग, न्यू दिल्ली मेसर्स कटरा रियल स्टेट प्रा0 लि0, पंजीकृत कार्यालय 206. बी विंग, द्वितीय तल, नीरंग डाउस, 21. कस्तरबा गाँधी मार्ग, न्यू दिल्ली।

कार्यालय 206. बी विंग, द्वितीय तल, नौरंग हाउस, 21, करत्रवा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली मे० ग्लिस्टर रियलटर्स प्राठ लिठ, पंजीकृत कार्यालय 206. बी विंग, द्वितीय तल, नौरंग हाउ 21. करतुरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली। श्री गणेश पुत्र महेश लाल, निवासी मिर्जापु भिटारी पोस्ट नींगांव, तहसील जिला फतेहपुर।

हा भूगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है। अतः आय दिनांक 08.06.2019 को समय 12.00 बजे वि अधोद्दरनाक्षरी के न्यायालय में वपरिधत होकर कार पष्ट करें कि क्यों न विलीय आस्तियों का प्रतिभृतिकर और पुनर्गटन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 की धारा-14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक हा को ऋण अदायगी वसली के संबंध में दे दी जाय। याँ गप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अद्योहस्ताक्षरी गयालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो समझा जायेगा नि ग्रापको कुछ नहीं कहना है और तदनुसार नियमानुर सादेश पारित कर दिए जायेंगे ।

 श्री महेश पुत्र श्री मिश्री लाल, निवासी मिर्जाप् भिठारी पोस्ट नौमांव, तहसील जिला फतेहपुर। एतदद्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि इलाहाबा बैंक, लखनक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्ष हें न्यामालय में गाविका प्रस्तुत करते हुए यह अवन कराया गया है कि आपके द्वारा चक्त बैंक से लिए गए ऋ

प्रस्तृत अभिलेख में कथित सम्पत्ति को कब्ते में लेकर बैंव (कौशल राज शर्मा) ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर

इंडिया के परिसरों में प्रवेश से रोका **BRAND REALTY**

SERVICES LIMITED Regd. Office: 5-8 & S-2, DDA Shopping: Complex, Opp. Pocket4, Mayur Vi har4 Delhi-110091 Landline: [91]-11-45613885 CIN: L74899DL1995PLC064237 We b: http://www.bra.ndrealty.in E-Mailtinfo@braindrealfy.in

Notice is hereby given that in compliance with Regulation 47 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 30th May, 2019 at 3:00 P.M. at the registered office of the Company situated at 5-8 & 5-2, DDA Shopping Complex, Opp. Pockel4, Mayur Vihar4, Delhi- 110091 inter-alia, to consider, approve and take on record the Audited Standalone Financial Results of the Company for the year ended 31" March, 2019. The said notice may be accessed on the

and may also be accessed on the Stock Exchange atwww.bseindia.com By Order of the Board For BRAND REALTY SERVICES LIMITED

Company's website at www.brandrealty.in

Kamal Manchanda

Whole time Director Date: 21" May, 2019 Place: New Delhi

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड म एवं पंजी. कार्यालय : महानगर दूरसंचार सदन, पंचम तल, 9, शीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 शीआईएन:L32101DL1986GOI023501

टी.ई. न. एमटीएनएस / सीओ / प्रशा. / हाजसकीपिंग / निविदा / 2019–20 दिनांक: 22.05.2019 एमटीएनएल द्वारा एमटीएनएल सी.ओ. नई दिल्ली में हाउसकीपिंग ए सम्बद्ध सेवाओं के लिए ऑनलाइन खुली निविदा आमंत्रित की जाती है विस्तृत विवरणों के लिए https://www.eprocure.gov.in/eprocure/app 2 www.mtnl.in पर लींग औन करें। डीई (प्रशा.) सीओ, 011-24329287

Regd. Off: M-19, 1st Floor, M-Block Market, Greater Kailash-II, New Delhi-110048 Website: www.mahaanfoods.com NOTICE

Notice is hereby given that, in terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday 29" May, 2019 at 03:30 P.M. at M-19, 1st Floor, M-Block Market, Greater Kailash Part-II, New Delhi - 110048 to inter-alia consider and approve the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2019.

Details of this notice has also been uploaded on the website of the company at www.mahaanfoods.com and also on the website of BSE Limited www.bseindia.com By order of the Board For Mahaan Foods Limited

Place: New Delhi Date: 21 May, 2019

Company Secretary cum Compliance Officer

सी आई एन : L28998DL1983PLC017150, पंजीकृत कार्यालय: 14, दयानंद विहार, बैकसाइड ग्राउंड फ्लोर, विकास मार्ग ऐक्सटेंनसन, दिल्ली 110092, दूरभाष :+91-11-430110038, ई मेल : swatiaugust.91@gmail.com वेक्साइट : www.akashdeepmetal.in

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 मई, 2019

वार्षिक एवं वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित (एकल एवं संयुक्त)वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकार करने हेतु होनी निर्धारित हुई है । (यह सूचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जहां कंपनी व शेयर है. www.bseindia.com पर तथा कंपनी की वेबसाइट

कृते आकाशदीप मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एसडी/-स्थान : दिल्ली

राजेश गुप्ता प्रबंध निदेशक दिनांक : 21/05/2019

E-mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in Website: www.oraclecredit.co.in, Phone: 011-26167775

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Wednesday, 29th May, 2019 at 12:00 P.M. at the Registered Office of the Company at P-7, Green Park Extension, New Delhi- 110016, inter-alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the

trading by designated persons under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015, the trading window has been closed for all Designated persons and their immediate relatives from 3" April, 2019 to 31" May, 2019

Exchange's website at http://www.bseindia.com For Oracle Credit Limited

Date: 21.05.2019

(Company Secretary & Compliance Officer)

नौ नक्सलियों ने किया

रायपुर, 21 मई (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में तीन इनामी नक्सलियों समेत नौ नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

बस्तर क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि क्षेत्र के बीजापुर जिले में तीन इनामी नक्सलियों समेत सात नक्सलियों ने और सुकमा जिले में दो नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सली जीवन शैली से त्रस्त और

सात नक्सलियों ने नक्सलवाद छोड़ने का फैसला

किया है। उन्होंने बताया कि नक्सली लक्ष्मण वंजामी (२९), नीलकंद्र रंजीत (२६), गुडसा वाचम (२९),

हमला, आगजनी, नक्सलियों की बैठक में शामिल होने और नक्सली पर्चा लगाने समते कई अन्य अपराध में शामिल होने का आरोप है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र के सुकमा जिले में भी दो नक्सिलयों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि नक्सल सदस्य पोड़ियाम पांडू (35) और हेमला मुया (30) ने पुलिस के सामर्ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

छत्तीसगढ़ : बारूदी सुरंग विस्फोट में दो जवान घायल

रायपुर, 21 मई (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में मंगलबार को नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया जिससे दो जवान घायल हो गए।

जिले के फुलबगड़ी थाना क्षेत्र के गोगुंडा गांव के करीब पहाड़ी में नक्सिलयों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट किया है। इस घटना में डीआरजी के दो जवान घायल हए हैं।

थानाँ क्षेत्र में एसटीएफ और डीआरजी के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। दल जब गोगुंडा गांव की पहाड़ी में था, तब नक्सिलयों ने दो बारूदी सुरंग विस्फोट किए। इस घटना में डीआरजी के दो जवान घायल हो गए। घायल जवानों बेहतर इलाज के लिए

एवं स्टॉक, ग्राम-सुआटा, पोस्ट-पौढ़ीखल में अन्य खर्चे दिनांक शाखाः न्यू टिहरी स्थित, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती सुमन रावत 22.08.2018 社 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया दिनांकः 21.05.2019 एस-7, गामा शॉपिंग मॉल, सैक्टर गामा-1,

परिशिष्ट-IV (नियम-8(1) अचल संपत्ति का कब्जा नोटिस

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित थारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अथोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 15.2.2019 जारी कर ऋणधारकों श्री रणजीत सिंह, पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह (ऋणधारक) मार्टगैजर), श्रीमती वन्दना सिंह, पत्नी श्री रणजीत सिंह (सह-ऋणधारकः) मार्टगैजर) तथा श्री रिकल गौतम (गारन्टर) पुत्र श्री नेत्रपाल गौतम तथा श्री विजय सिंह पुत्र लतुर सिंह (गारन्टर) जिनका हमारी ग्रेटर नोएडा शाखा में खाता है, को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्डारा ऋणधारक तथा आम बनता को सूचित किया जाता हैं कि आज, 16 मई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पटित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्ना कर लिया

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज, लागत, अन्य चार्नेज, खर्चे के साथ र 3177130.00, 30.4.2019 को बकाया राशि के लिये इंडियन बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

Ħ.	सर्वे न		एरिया (एकड्/ हेक्टयर्स में)	उपणस्थिति	वीहरी
1.	शॉप नं. एराए 704	क्रिजी प्रलेख		शॉप नं. एसए-704, 7वां तल, फ्लॉट नं. ए-5, दुबई पाल कॉर्पार्सिनल शॉपिंग कॉम्प्लैक्श आरडीती, रोक्टर- 20, राजनगर, गाजियाबाद	
तिथा	16.5.20	19			प्राधिकृत अधिका

नई दिल्ली

प्रपत्र सीए: किसी धर्म में दिलीक केडीटरे क्राप्त खरी पपत हो: क्रिमेंगे अध्या कर्पचारियों द्वार ठाये एपड ई: क्यिंमों अथवा कर्मकरिमों के किही प्रशिक्त प्रतिरिधि द्वार जमा किमे हमें ठवें पपत्र एक: वितीय केडीटर्रे तथा ऑपरेश्वनल केडीट्रें के अतिरिक्त केडीट्रें द्वारा ठवे द्यंचे का गत्तन अथवा भाषक प्रमाणों को जमा करने पर दक्षित किमा जा एकता।

विद्येक स्रोजा अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेट्सन TBBI/TPA-001/TP-P00055/2017-18/10133

मे0 अंसल प्रोपटींज एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर लि0,

मे0 इलिटिस्ट रियलटोर्स प्रा0 लि0, पंजीकृत

ई-निविदा आमंत्रण सुचना

Mahaan Foods Limited CIN: L15419DL1987PLC350285

(Shubham Jain)

आकाशदीप मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेंड

को, 14, दयानंद विहार, बैकसाइड ग्राउंड फ्लोर, विकास मार्ग ऐक्सटेंनसन दिल्ली—110092, पर अन्य विषयों सहित, 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए कंपनी के

www.akashdeepmetal.in पर भी उपलब्ध है)

NOTICE OF BOARD MEETING

Company for the quarter & year ended, 31" March, 2019. Further, in terms of Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report

This information may be accessed on the Company's website at http://www.oraclecredit.co.in/ and may also be accessed on the Stock

Place: New Delhi

वैक ऑफ इंडिया **कब्जा सम्बन्धी सूचना** (चल/अचल सम्पत्ति हेतु) Bank of India सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सटक्शन ऑफ फाइनैशियल असेटस इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टेस्ट एक्ट 2002 तथा सिक्योरिट इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ इंडिया ने सम्बन्धित ऋणियों के नाम के सामने दर्शाये गए खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियाँ द्वारा राजि अदा करने में असफल होने पर ऋणी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता

की घारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है। मांग नोटिस मांग नोटिस के कब्जा नोटिस क्रं. ऋणकर्ता एवं बंधक सम्पत्तियों का विवरण शाखा का नाम की तिथि अनुसार बकाया राशि का तिथि बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व 05.10.2018 👨 9,76,623.36 15.05.2019 + ब्याज व खंड खाता नं0 14, प्लॉट नं0 72, ग्राम-शाखाः न्यू टिहरी हुगीधार, बीराड़ी, न्यू टिहरी गढ़वाल-249001 अन्य खर्चे दिनांक 28.09.2018 से में स्थित, सम्पत्ति स्वामी कुलभूषण नौटियाल ₹0 470872.95 16.05.2019 बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड मशीनरी 17.09.2018 श्रीमती सुमन + ब्याज व

है कि कि प्राधिकत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पहते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभृति

हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिय

गया है। ऋणियों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार

का लेन-देन न करें। इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन **वैंक ऑफ इंडिया** को देय राशि एवं उस पर अर्जित व्याज के चार्ज के पर्ण

भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। **उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम**

😂 इंडियन बैंक Indian Bank आपका अपना बैंक

ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. Email:greaternoida@indianbank.co.in

वर्णित राशि रु. 30,96,095/- (रुपए तीस लाख छियानचे हजार पंचानचे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

गिरषी संपति का विवरण

स्थानः ग्रेटर नोएडा

नई दिल्ली, 21 मई (भाषा)।

यौन उत्पीड़न के आरोपी एअर इंडिया के पायलट को कहा गया है कि उसे जांच पूरी होने तक एअरलाइन के कार्यालयों में प्रवेश करने से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी।

राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने गत बुधवार को कहा था कि उसने आरोपी के खिलाफ जुनियर महिला पायलट की यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच शुरू की है। आरोपी के पास कमांडर रैंक का वरिष्ठ पद है। सोमवार को आरोपी को लिखे पत्र में एअर इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर क्षेत्र) अभय पाठक ने कहा, 'जांच पूरी होने तक, निलंबन की अवधि के दौरान आप बिना अनुमति के एअर इंडिया लिमिटेड के परिसरों में प्रवेश नहीं करेंगे।'

पाठक ने कहा, 'आप अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बिना शहर (दिल्ली) नहीं छोड़ सकते।' महिला पायलट द्वारा दर्ज कराई शिकायत के अनुसार, यह कथित घटना हैदराबाद में पांच मई को हुई जहां वह कमांडर पायलट से प्रशिक्षण ले रही थी। शिकायत में महिला पायलट ने आरोप लगाया कि इंस्ट्रक्टर ने कहा कि दोनों को दिन में प्रशिक्षण सत्र खत्म होने के बाद एक रेस्त्रां में डिनर करना चाहिए। उसने आरोप लगाया, 'हम रात को करीब आठ बजे एक रेस्त्रां में गए और यहां से मेरी मुसीबतें शुरू हुई। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि वह अपने विवाहित जीवन से किस तरह परेशान और नाखुश है।' उसने कहा, 'उसने मुझे पूछा कि मैं अपने पति के दूर रहने से कैसे निपटती हूं और क्या मुझे हर दिन यौन संबंध बनाने की जरूरत नहीं होती। ...एक वक्त पर मैंने उनसे कहा कि मैं इन सबके बारे में बात करना नहीं चाहती और मैंने कैब बुला ली।' पायलट ने आरोप लगाया कि कैब के लिए आधे घंटे के इंतजार के दौरान कमांडर का व्यवहार और खराब हो गया।

कालाधन कानून अप्रैल 2015 से लागू करने के आदेश पर रोक

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 21 मई।

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बने काला धन कानून को अप्रैल, 2015 से लागू करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा इस कानून के तहत अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी गौतम खेतान खिलाफ के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। न्यायमुर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाले अवकाशकालीन पीठ ने

केंद्र की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के 16 मई के आदेश पर रोक लगा दी और गींतम खेतान को नोटिस जारी किया। गीतम खेतान को छह हफ्ते के भीतर नोटिस का जवाब देना है। केंद्र ने हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। इस मामले का सोमवार को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष उल्लेख करते हुए महान्यायवादी ने कहा था कि इस कानून के आधार पर ही केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कई जांच शुरू की हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि काला धन (अघोषित

विदेशी आमदनी और संपत्त) और कर का अधिरोपण कानून, जो अप्रैल, 2016 में बना है, को जुलाई, 2015 से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। गौतम खेतान 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले के आरोपियों में से एक है और उसने काला धन कानुन के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है।

खेतान ने आयकर विभाग के 22 जनवरी के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत आयकर विभाग ने खेतान के खिलाफ इस कानून की धारा 51 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति प्रवान की थी। इस कानून के तहत जानबूझ कर टैक्स चोरी करने का दोषी पाए जाने की स्थिति में दोषी को तीन से दस साल तक की सजा हो सकती है। इससे पहले हाई कोर्ट ने केंद्र से जानना चाहा था कि अघोषित विदेशी आमदनी और संपत्ति के मामलों से निपटने के लिए अप्रैल, 2016 में बनाए गए कालाधन कानून को जुलाई 2015 से किस तरह लागु किया जा सकता है।

आत्मसमपेण

खोखली विचारधारा से क्षुब्ध होकर बीजापर क्षेत्र के

राजू राम वाचम (30), लायसु वाचम (25), मंगल दिवा (18) और चिन्ना मज्जी (19) ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में लक्ष्मण वंजामी, नीलकंठ रंजीत और गृडसा वाचम पर एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित है। इन नक्सलियों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, पुलिस दल पर

सुकमा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फुलबगड़ी

रायपुर भेजा गया है।

BHAGAWATI GAS LIMITED

CIN: L24111RJ1974PLC005789

Regd. Office: Banawas, Khetrinagar-333504.

Jhunjhunu, Rajasthan.

Corp. Office: S-492/A Greater Kailash - I,

New Delhi - 110048

NOTICE

Notice is hereby given with Stock

Exchange, that a meeting of the Board of

WEDNESDAY, MAY 22, 2019

Regd. off.: No. 6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli. New Delhi-110030 Tel.: 011-49518530 Fax: 011-26804883

-mail: investor.ttl@tinna.in, www.tinnatrade.in CIN: L511000L2009PLC186397

NOTICE Notice is hereby given in terms of Regulations

29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 30th May, 2019, at the Registered Office of the company, inter-alia, to consider and approve the Standalone & consolidated audited Financial results of the Company for quarter & year ended on 31st March, 2019.

The information contained in this notice is also available on Company's website at www.tinnatrade.in and also on the website of Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com For Tinna Trade Limited

Monika Gupta Place: New Delhi Company Secretary Date: 21.05.2019

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

"IMPORTANT" SBEC SYSTEMS (INDIA) LIMITED CIN: L74210DL1987PLC029979 Whilst care is taken prior to Regd. Office: 1400 Modi Tower, acceptance of advertising 98, Nehru Place, New Delhi-110019. Email: sbecsystems@rediffmail.com copy, it is not possible to verify Website: www.sbecsystems.com its contents. The Indian

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listin Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, that a meeting of the Boar of Directors of the Company will be held o uesday, 28" May, 2019 inter alia to conside and approve the Audited Financial Results of the Company for the year and quarter ended or 1" March, 2019.

he information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e (www.sbecsystems.com) and the website of the Stock Exchange i.e. (www.bseindia.com). By Order of the Board

For SBEC Systems (India) Limited

Place: New Delhi Priyanka Negi Dated: 22.05.2019 Company Secretary & Compliance Officer



Notice is thereby given that the following shares bearing distinctive numbers are stated to have been lost/ misplaced or stolen and the registered holder[s]/ applicant[s] has/ have applied for issue of duplicate share

Dist No.(s) :	27157464-27157473
	27617229-27617233 33407464-33407473 33867229-33867233
Dist No.(s):	59151860-59151860 59192631-59192631 65010465-65010465 65012870-65012870
Dist No.(s) :	39007129-39007278
Dist No.(s) :	20 56 14 90-20 56 154 9
Dist No.(s):	25014034-25014693 31264694-31264693 39796428-39796577
Dist No.(s):	9233166-9233265 12432816-12432865 22472359-22472469 24722359-28722468 3442281-3442330
Dist No.(s) :	38461363-38461412
Dist No.(s) :	23724259-23724308 29974259-29974308
Dist No.(s):	43768134-43768283
Dist No.(s) :	9385228-9385277
Dist No.(s) :	5172381-5172430
	Dist No.(s): Dist No.(s): Dist No.(s): Dist No.(s): Dist No.(s): Dist No.(s):

share certificate(s) and issue duplicate share certificate(s) to the registered holder(s) / applicant(s) Read. Office:

15/5, Mathura Road, Faridabad - 121003 Haryana Date: 21.05.2019

For Escorts Limited Ajay Sharma Group General Counsel & Company Secretary

Karnataka Bank Ltd. POSSESSION Your Family Bank. Across India. Head Office: Mangaluru - 575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128

NOTICE

Asset Recovery Management Branch: (For Immovable 8-B.First Floor, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi-110060 Property) Phone: 011-25813466, E-Mail: delhiarm@ktkbank.com, Mob: 9319891680

Whereas, undersigned being the Authorised Officer of KARNATAKA BANK LIMITED, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act], 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 02.01.2019 calling upon the borrower/ mortgagor/ guarantors: (1) Mrs.Sonia Mahajan, W/o Mr.Vikranth Mahajan (2) Mr.Vikranth Mahajan, S/o Mr.S P Mahajan, No1-2 are addressed at MF-19. ELDECO Mansionz sector-48, Sohna Road, Gurgaon, Faridabad-122002 (3) Mr.Sandeep Mahajan, S/o Mr.S P Mahajan (4) Mrs.Mamta Mahajan, W/o Mr. Sandeep Mahajan, No. 3-4 are addressed at :- MF-21 ELDECO Mansionz Sector-48, Sohna Road, Gurgaon, Faridabad-122002, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.6,27,10,779.00 [Rupees Six Crore Twenty Seven Lakhs Ten Thousand Seven Hundred Seventy Nine Only] i.e under i) Rs.3,22,09,857.00 under Term Loan A/c No.2257001600031201 along with future interest from 03.12.2018 ii) Rs.3,05,00,922.00 under Term Loan A/c No.2257001600032701 along with future interest from

26.12.2018, within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers, mortgagors and the guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, mortgagors, guarantors and the public in general that the undersigned has taken the Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 and 9 of the Security Interest Enforcement, Rules 2002 on this the 20th day of May of the year 2019.

The borrowers, the mortgagors and the guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property mentioned herein below and any dealings with the property will be subject to the charge of Karnataka Bank Limited, Faridabad Branch-Haryana for an amount of Rs.6,43,45,486.00 i.e under i) Rs.3,31,81,363.00 under Term Loan A/c No.2257001600031201 along with future interest from 03.03.2019 ii) Rs.3,11,64,123.00 under Term Loan A/c No.2257001600032701 along with future interest from 26.02.2019, Plus costs.

[The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.]

Description of the Immovable Property

1) All that part and parcel of residential property House No. Mayfair (MF) No.21, land measuring 303 sq.yds, with building constructed thereon, on plot No.Q3/B5/21 Comprising in Khasra No.6/2(4-13), 7/2(9-2), 14(8-0), 15(8-0), 16/1(1-4), 16/2(6-16), 17/1(0-16), 17/2/1(0-18), 17/2/2(3-7), 24(5-4), 24/2(2-16), 28(8-0) of Rect. No.15, Khasra No.11/2(9-4), 12/2(5-1), 19(7-10), 20(8-0), 21(8-0), 22/1(6-1), 22/2(3-7) of Rect. No. 16, Khasra No. 1(5-0), 2/1(4-4) of Rect. No.18, Killa No.5(5-13), 4(8-9), of Rect. No.19 situated within the revenue estate of Village Fazilpur Jharsa Tehsil & District Gurgaon and known as Eldeco Mansionz Uppal Southend, Sector-48 & 49, Sohna Road Gurgaon belonging to

Mrs. Sonia Mahajan & Mrs. Mamta Mahajan Boundaries: East: House No.MF-31, West: Road 9 m wide, North: Road 12 m wide, South: House No.MF-20

All that part and parcel of residential property House No.Mayfair (MF) No.26. land measuring 303.sq.yds, with building constructed thereon, on plot No.Q2/B5/26 Comprising in Khasra No.6/2(4-13), 7/2(9-2), 14(8-0), 15(8-0), 16/1(1-4), 16/2(6-16), 17/1(0-16), 17/2/1(0-18), 17/2/2(3-7), 24(5-4), 24/2(2-16), 28(8-0) of Rect. No.15, Khasra No.11/2(9-4), 12/2(5-1), 19(7-10), 20(8-0), 21(8-0), 22/1(6-1), 22/2(3-7) of Rect. No. 16, Khasra No. 1(5-0), 2/1(4-4) of Rect. No.18, Killa No.5(5-13), 4(8-9), of Rect. No.19 situated within the revenue estate of Village Fazilpur Jharsa Tehsil & District Gurgaon and known as Eldeco Mansionz Uppal Southend, Sector-48 & 49, Sohna Road Gurgaon belonging to Mrs. Sonia Mahajan & Mrs. Mamta Mahajan

Boundaries: East: Road, West: Villa Built on plot No.MF.16, North: Villa Built on plot No.MF.27, South: Villa Built on plot No.MF.25

Place: Gurgaon For Karnataka Bank Ltd Date: 20-05-2019 Chief Manager & Authorised Officer

Anna Infrastructures Limited CIN: L65910UP1993PLC070612

R/O: Shop No. 1 & 3, E-14/6 First Floor,

Shanta Tower, Sanjay Place, Agra - 282002

Email ID: annainfra@gmail.com,

Website: www.annainfra.com,

Telephone: 0562-2527004

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47of the SEBI (Listing Obligation and Disclosur

Requirements) Regulation, 2015, Notice

hereby given that a meeting of the Board of

Directors of the Company is scheduled to be

held on Wednesday, 29" May, 2019 at

02:00 PM at registered office of the Company to

consider and take on record inter-alia the

Audited Financial Results for the Quarter ender

The said notice is also available on a website of

Company i.e. www.annainfra.com and may also

For & on behalf or

Kanchan Agarwal

(Company Secretary)

Anna Infrastructures Limited

access on the website of Stock Exchange i.e

31" March, 2019.

www.bseindia.com.

Place : Agra

Date: 21.05.2019

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED (CIN: L74899DL1986PLC023202)

Registered Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110020
Tel.: +91 11 4733 4100 Fax: +91 11 2681 1676, Email: investorrelations@shardamotor.com

Website: www.shardamotor.com NOTICE

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, Notice is hereby given that next Board Meeting of the Company is scheduled to be held on Monday, 27" May, 2019, inter-alia, to:

 a) consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the last quarter and year ended 31" March, 2019; b) consider and recommend a final dividend, if any, for the financial year

2018-19. The said notice is also available on the Company's website www.shardamotor.com and may also be accessed on the website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Sharda Motor Industries Limited

Date: 20" May, 2019 Nitin Vishnoi Place: New Delhi Company Secretary

MINDA FINANCE LIMITED (CIN: L67120DL1985PLC021349)

Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052 Tel No.: 011 49373931, Website: www.mindafinance.com, E-mail: lalitk@mindagroup.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Minda Finance Limited will be held on Tuesday, May 28, 2019, inter-alia, to consider and approve the audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the guarter and year ended on March 31, 2019.

The notice is also available on the website of the Company www.mindafinance.com and also on the website of stock exchange at www.bseindia.com.

For Minda Finance Limited

Lalit Khubchandani

Place: Delhi Date: May 21, 2019

Company Secretary

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that our client, M/s. Muthoot Finance Ltd. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), Registered Office: 2nd Floor, Muthoot Chambers, Banerji Road, Kochi - 682018, Kerala, India, CIN: L65910KL1997PLC011300, Ph: +91 484-2396478, 2394712, Fax: +91 484-2396506 mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com is conducting Auction of available ornaments, in respect of the following Loan Accounts:

Date of Auction: 27.05.2019

Gurgaon-I Branch: Account No. GL-1989, 2021, 2159, 2161, 2164

Borrower: Vipin Bhola

Address: 2nd Floor, S.C.O No. 22, Huda Shopping Complex, Sector-14, Old Delhi Road, Gurgaon, Haryana - 122001

The auction in respect of the loan accounts shown above, will be conducted at the aforementioned branch. However, in case the auction does not get completed on the given date then the auction shall be continued on subsequent days thereafter, at this same venue. No further notice shall be issued in this respect.

Kohli & Sobti, Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024 Note: Customer(s) can release the ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461



B. Earnings Per Share


NIT No.

CMC/BY/19-20/

(a) Basic

(b) Diluted

Shetron Limited CIN: L21014KA1980PLC003842.



Regd. Office: Plot No.1, Bommasandra Industrial Area, Hosur Road, Bangalore - 560099. Ph: +91-80-27832290/91/92/46, Website: www.shetrongroup.com; Email: investors@shetrongroup.com Extract of Consolidated Audited Financial Results for the

Quarter and Year Ended 31st March, 2019

(₹. in Lakh					
Si. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2019 Audited	Year Ending 31.03.2019 Audited	Quarter Ended 31.03.2018 Audited	
1.	Total Income from operation (net)	3,487	16,662	3,577	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(13)	290	(13)	
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(13)	290	(13)	
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary Items)	(25)	179	(25)	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(33)	159	(32)	
6.	Equity Share Capital	900	900	900	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	300	300	

Note: 1. The above audited Consolidated Financial Results, as reviewed by the Audit Committee, approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 20th May, 2019.

(0.37)

(0.37)

1.77

1.77

(0.36)

(0.36)

2. The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on the Company's

Additional information of the Company on S	tand-alone basis(unmodifi	ed opinion)	(₹. in Lakhs)
Particulars	Quarter Ended 31.03.2019 Audited	Year Ending 31.03.2019 Audited	Quarter Ended 31.03.2018 Audited
Total Income	3487	16662	3574
Profit/loss before tax	30	331	-7
Tax Expense	12	111	5
Net Profit /loss after Tax	18	220	-12

Diwakar Shetty

Place: Bengaluru Date: 20.05.2019

NOTICE

Regd. Office: A-138, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092 E-mail: cnpl_5000@rediffmal.com Website: www.coralnewspiintslimited.com Tel.: 22010998 Notice is hereby given that pursuant to

the provisions of Regulation 29 and 47

CORRL NEWSPRINTS LTD.

CIN No : L22219DL1992PLC048398

of SEBI Listing [Listing Obligations and] Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of CORAL NEWSPRINTS LIMITED will be held on Wednesday, 29th May 2019, for inter alia Audited Results for 4th Quarter and Financial year ended March 31, 2019 & other items of agenda. Information in this regard is also available on the website of the company i.e. www.coralnewsprintslimited.com and on the website of Stock exchange i.e. www.bseindia.com For Coral Newsprints Ltd.

Dated : 21.05.2019 (P.P.S. Chauhan) Place: Delhi Director (DIN: 01871760)

VINAYAK P@LYC®N ∨ Internati⊕nal Ltd. CIN No.: L25209RJ2009PLC030620

Regd. Office: 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur-302006 (Raj.) India Tel. No. +91-141-2377007

NOTICE Pursuant to Regulation 47(1) (a) of the SEB

(Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 30th day of May, 2019 at 3:00 P.M. at its Registere Office 312, Navjeevan Complex, 29, Statio Road, Jaipur, inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the quarter/year ended on 31st March, 2019. This information is also available on the website of the company at www.vinayakpolycon.com and also on the website of BSE Ltd. where the shares of the company are listed at www.bseindia.com. By Order of the Board, For Vinayak Polycon International Limited,

Rashmi Agarwal Date: : 21.05.2019 Company Secretary & Place: Jaipur Compliance Officer

MADHAV MARBLES AND

GRANITES LIMITED Regd. Off.: First Floor, Mumal Towers, 16

Saheli Marg, Udaipur-(Raj.) 313 001 CIN: L14101RJ1989PLC004903, Tel: 0294-2981666 Web: www.madhavmarbles.com Email: investor.relations@madhavmarbles.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we would like to inform that the meeting of the

Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, May 28, 2019 to transact the following matters: To consider and approve the Audited standalone and consolidated financia results of the Company for the quarter an year ended March 31, 2019

To consider recommendation of Dividend if any on Equity shares of the Company. 3. To consider and approve re-appointment of Mr. Ravi Kumar Krishnamurthi (DIN: 00464622) and Ms. Swati Yaday (DIN 06572438) as Non-executive Independent

Directors. By order of the Boar For Madhay Marbles and Granites Ltd. Sd Place: Udaipur Priyanka Manawat Date: May 20, 2019 Company Secretary

Form No. INC-25A Newspaper Advertisement for conversion of public company into a private company Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, Delhi

In the matter of Section 14 of Companies

Act, 2013 & rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of Nam Credit and Investment Consultants Limited having its registered office at 213, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001

NOTICE is hereby given to the general public that the company is intending to make an application to the Central Government u/s 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the EGM held on 15.04.2019 to enable the company to give effect

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by egistered post of his/ her objections supported by an affidavit stating the nature of his/ her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region Bench, at the address, B-2 Wing, 2" Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: "213, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi- 110001"

for such conversion.

For and on behalf of the Applicant (Kiran Goyal) Date: 21.05.2019 Director Place: New delhi (DIN: 00503357)

BSES Yamuna Power Limited, New Delhi ... A joint venture with Govt. of NCT of Delh Date: 21.05.2019 NOTICE INVITING TENDER Sealed tenders under two Bid System (Unpriced & Priced) is invited for following jobs: Estimate Due Date & Time Date & Time Cost of **Brief Work Description** Cost (₹) EMD (₹) of Submission of Opening 06.06.2019 Material Shifting Services in Various 06.06.2019 ₹ 25 Lakhs ₹ 50,000 14:30 HRS.

RB/SS/018 15:30 HRS. Stores /Sites For details in respect of Equipment/BOM/Services, Qualifying requirements, Terms & conditions, purchase/submission of tender documents, corrigendum etc. please visit our website www.bsesdelhi.com --> BSES YAMUNA POWER LTD --> Tender --> Open

Head (Contracts & Materials) Regd.Off: BSES Yamuna Power Ltd, Shakti Kiran Building, Karkardooma, Delhi-110032 | CIN: U40109DL2001PLC111525 TEL: 011-39997111 | Fax-011-39992076 | Website: www.bsesdelhi.com

Pello Demand Armit, Disso are per

demand Notice

7,20,723,00

+ Inst. from

23.01.2019

& others exp.

केनरा बैंक Canara Bank Pranch: Kelanagar, Aligarh

POSSESSION NOTICE {for immovable property}

The Authorized Officer of Cenera Bank under the Securitzation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Pale-3 of the Security Interest (Enforcement) Pales, 2002, Issued demand notice on the date manifored against account and stated hereunder calling upon the borrowers/guaranters/mortagagors to repay the amount mentioned in the notice being tagether with further interest at confractual rate on the aforesaid amount and indicental expenses, costs, charges etc. within obdy days from the date of receipt of said notice. The borrowers/guarantors/ mortgagore having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagore and the public in general that the undentigned has taken the possession of the Property described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with the Ruis-5 of the said Ruise on the date mentioned hersunder. The borrowers eliention is invited to the provision of Sub-Section (8) of section - 18 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The Borrowers/Gusranton/Mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property will be subject to the charge of Cenare Bank for the amounts and interest thereon. Datalis of the mortgaged Property of which the possession had been taken is as follows.

Name of the
Borrowere/Guarantere
Branch Mrs. Manju Davi W/o
Mr. Setish Chendra, 2. Mr.
Sellish Chandra S/o Mr. Radhay Shyann Varshney,
Both R/o 15/42 Esha
Neger Sasni Gets, Aligarh, 3. Mr. Amar Singh Rawet

(Guarantor) 8/0 Mr.

Ganga Presad R/o 15/43

Khai Dora Aligarh 202001

Date: 22.06.2019 Place: Algert

Details of the Mortgaged Property

Residential Property at Khaera No. 193, 23.81.2819 Village Pale Sahibabad, Teheli Koli, Aligarh 17.68.2019 meesuring 120 Sq. Yerds or 100.33 sq. mtr. Bounded se under: East: 25 feet wide road, West: Residential Property 24 feet, North: Plot of Mr. Ashok Kumar, South: Plot of Mrs. Meena DevL

Authorized Officer Cenere Bank

Date: 21.05.2019

ARAVALI SECURITIES AND FINANCE LIMITED CIN: L67120HR1980PLC039125 Office: Plot No. 136, 4" Floor, Rider House, Sector -44, Gurgaon, Haryana-122003 Ph. 0124-4556677, E-mail: info@aravalisecunities.com Website: www.aravalisecurities.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE NOTICE is hereby given that the following Share Certificate has been lost: Shareholder Name : M/s Aravali Securities and Finance Limited M/s Dalmia Bharat Limited 225212

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way,

Issued By Certificate No. 188549408 to 188550147 Distinctive No. Folio No. DBL0225212

with the above mentioned Share Certificates. For Aravali Securities and Finance Limited

Devashish Poddar

HIRA AUTOMOBILES LIMITED

Regd. Office: # 598, Sector 18-B, Chandigarh | CIN:- L50101CH1989PLC009500 Tel:0172-2743462 | Email : hiraaccounts@gmail.com | www.hiraautomobiles.com

COMPANY NOTICE Pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors will be held on Thursday on 30th May, 2019 at 04.00 p.m. to consider, inter alia, Audited Financial Results of the Company for the Quarter and the Financial Year ended on 31st March, 2019. The said notice is also available on company's website www.hiraautomobiles.com

> For Hira Automobiles Ltd. Rahulinder Singh Sidhu (Chairman) DIN-00447452

Date: 21-05-2019 SHARMA EAST INDIA HOSPITALS & MEDICAL RESEARCH LIMITED Regdioffice; Jaiour Hospital Near SMS Stadium Ital Kothi Tonk Road Jaiour. Phone: 0141-2742957 2742266 • CIN: L85110RJ1989PLC005206 E-Mail: sharmaeastindia@gmail.com + Website: www.jaiburnosbital.com NOTICE OF BOARD MEETING

and may also be available on the website of BSE Limited www.bseindia.com

Pursuantto Regulation 47 [1] ja) of the SEBI JLODR) Regulations, 2015. Notice is hereby given that meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, May 30, 2019 at 04.00 P.M. at the registered office of the Company. Inter-aira to consider and approve the Audited Financial Results of the company for the qualter and financial year ended on 31st March, 2019 and any other matter with the permission of Chair. This information is also available on the website of the company at www.japurhospital.com and also on the website of BSE ttd. where the shares of the company are listed atwww.bseindia.com. By order of the Board

For Sharma East India Hospitals & Medical Research Limited Date: May 21, 2019 Sd/- (Shiv Shankar Sharma) Company Secretary Place : Jaipur

Date : 21" May, 2019

Place: Chandigarh

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED

Regd. Office: "BHEL House", Siri Fort, New Delhi- 110 049. CIN: L74899DL1964GOI004281, E-mail: shareholderquery@bhel.in

NOTICE OF LOSS/NON-RECEIPT OF SHARE CERTIFICATES Notice is hereby given that the company has received intimation from the following Shareholder(s) that the certificate(s) pertaining to the equity shares as detailed below has been

Website: www.bhel.com, Phone: 011-66337000, Fax: 66337428

RY VARGHESE	009742	500		1102806
	200000000000000000000000000000000000000	500	9002243	1103305
claim of the said sh	are(s) or a	iny valid objecti	on(s) for issuance	e of the duplicate
	claim of the said sh	claim of the said share(s) or a icate(s) in favour of the said app	claim of the said share(s) or any valid objecti cate(s) in favour of the said applicant(s) is lodg	oses to issue duplicate share certificate(s) in lieu of the above s claim of the said share(s) or any valid objection(s) for issuand cate(s) in favour of the said applicant(s) is lodged with BHEL at it

the company does not receive any claim/objection within 15 days from the date of publication of this notice. The company will proceed further to issue duplicate share certificate(s) to the aforesaid shareholders. Public are hereby cautioned not to deal with the above share certificate(s) anymore and the company will not be responsible for any loss/damage occuring thereby.

For BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD.

(Rajeev Kalra)

Place: New Delhi Company Secretary Form no INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Before the Central Government

Regional Director, NR, NEW DELHI. In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the

Companies (incorporation) Rules, 2014 In the matter of SOLAIRE IMPEX PRIVATE LIMITED, having its registered office

at Apartment-No101, I-22 Jungpura Extension, New Delhi-110 014 Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 18.05.2019 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Gujarat"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the egistered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, at the Address, B-2 Wing, 2" Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi- 110 003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applican company at its registered office at the address mentioned below:

Registered Office: Apartment-101, I-22 Jungpura Extension, New Delhi-110 014 For and on behalf of

SOLAIRE IMPEX PRIVATE LIMITED

Mohammad Sefat Ahmed Director Din: 05167277

Date: 22.05.2019

Place: New Delhi Andhra Bank

Old Station Road, SCO-5, Jail Land, Sohna Chowk, Gurgaon - 122001 Tel: 0124-2300494

POSSESSION NOTICE (RULE 8(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002)

(for immovable property) WHEREAS The undersigned being the Authorized Officer of Andhra Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 01-03-2019 calling upon the borrower Mrs. Riti Nayyar and Mr. Saurabh

Nayyar, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 40,10,026/-

(Forty Lakh Ten Thousand Twenty Six) within sixty days from the date of receipt of the said notice i.e (15-03-2019) The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 16th day of May of the

The borrower's attention is invited to provisions of Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. The borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned

not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Andhra Bank for the amounts due from borrower(s) and interest thereon. DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

Date: 16-05-2019 AGM/CHIEF MANAGER & AUTHORIZED OFFICER Place: Gurgaon

Land and Building - Residential admeasuring approximately 708 Sq.ft

situated at House No. 152/12B, measuring 77.5 sq.yds in Gali No. 4,

Near Shiv Mandir, Krishna Colony, Main Road Gurgaon and bounded by

:East: Gali, West: House of Rajan Nayyar, North: Main Road South:

🕨 इंडियन बैंक Indian Bank Your own bank

House of Rajesh Nayyar

All that part and parcel of the property consisting of:-

Sector Gammas I, Greater Noida, UP. Email:greaternoida@indianbank.co.in

POSSESSION NOTICE (for immovable property) Where as The undersigned being the Authorised Officer of the Indian Bank under the Securitisation

and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 15.02.2019 Calling upon the borrower/s Mr. Ranjit Singh S/o Shri Narendra Singh (Borrower / Partner/ Mortgagor), Mrs. Vandana Singh W/o Shri. Ranjit Singh (Co-Borrower/ Partner /Mortgagor /Guarantor) and Mr. Rinkal Gautam Gaurantor) with our Greater Noida Branch to repay the amount mentioned in the notice being Rs 30,96,095/- (Rupees Thirty Lakhs Ninety Six Thousand Ninety Five Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Section 13 (4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rules on this 16th day of May of the year 2019. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property

of Rs 31,77,130.00 as on 30.04.2019 with further interest, costs, other charges expenses thereon. DESCRIPTION OF THE MORTGAGED PROPERTY N. Survey Freehold/ Area (In Acres/

NO	No.	Lease hold	Hectares)	Location	Boundary
1.	Shop No SA 704	Sale Deed	60.00 Sq mts.	I SHOWN AND CONTRACTOR AND A TODOUR IS NOT AND AND CO.	North:-Corridor South:-Open on G East:- Shop no-70 West:- Stair
Date :16.05.2019 Place : Greater Noida			oida	Au	thorised Officer Indian Bank

Directors of the company will be held on Thursday, 30" May, 2019 at 11,00 AM at S-492/A Greater Kailash-I, New Delhi-110048 to approve the Audited Financial Results of the company for the quarter and vear ended 31" March, 2019. By order of the Board

Place: New Delhi | Date: 21.05.2019

FRUITION VENTURE LIMITED CIN: L74899DL1994PLC058824 Regd Office: 21-A, 3rd Floor Savitri Bhawan, Commercia

Complex, Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009 Tel: +91-11-47027878 Fax: +91-011-47561818 Website: www.fvl.co.in. Email: csfruitionventure@gmail.com NOTICE

Pursuant to clause 41 of the listing Agreement, Notice shareby given that the Meeting of the Board of Directors If the Company is scheduled to be held Wednesday he 29th day of May, 2019 at the registered office of the Company to inter alia consider and approve the audited financial results of the Company for the quarter & year ending March 31, 2019.

Date: 21.05.2019 Asia Capital Limited CIN: L65993DL1983PLC016453

New Delhi- 110 001 Tel: +91-11-2334 8954 Email:asiacapitallimited@gmail.com Website: www.asiacapital.in NOTICE

the Registered Office of the Company at 2" Floor. Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi- 110 001, inter-alia, to consider and approve the audited financial results for the quarter/year ending 31° March 2019. For Asia Capital Limited Date: 20.05.2019 Kaveri Ghosh

MANUFACTURING COMPANY LTD CIN No. L27107RJ1985PLC003370 REGD. OFFICE.: 28-37, Banke Bihari Ind. Area, Jatawali Mod. Maharkala Road, Village Dehr Chomu, Jaipur-303806, Tel: +91-9828311222 NOTICE

bligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 30" May 2019 inter alia, to consider and approve the Audited inancial Results of the company for the quarter and ear ended 31" March, 2019.

ebsite at www.bseindia.com. For RAJASTHAN TUBE MFG. CO. LTD. Sd/-Place : Jaipur (Anshu Gupta) Date: 21.05.2019 COMPANY SECRETARY

Vebsite at www.rajtube.com and on Stock Exchange

(CIN: L74899DL1994PLC059252) Regd Office: 110. Babar Road. New Delhi-110001; Tel.: 011-46201000 E-mail: jindal@jindal.bz

Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, May 30°, 2019 at 4:00 p.m. to consider and approve Audited Financial Results of the Company for the quarter/Financial Year ended March 31" 2019. The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.jlltd.in and the website of the stock exchange at

For Jindal Leasefin Limited Date: May 21, 2019 Surender Kumar Jindal

PACT INDUSTRIES LIMITED Opp. Railway Station, Ludhiana. CIN: L18101PB1993PLC013193 Tel.: 0161-2731851/852 Fax: 0161-2721876 Email: pactindustries1993@gmail.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that the

www.pactindustnes.com For Pact Industries Limited Place: Ludhiana Harpreet Singh Date : 21.05.2019 Managing Director

KUWER INDUSTRIES LIMITED New Delhi- 110065

Email I.D info@kuwer.com. Website- www.kuwer.com NOTICE Notice is hereby given pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures

Thursday, 30.05.2019, at 03:00 P.M. at registered office of Company at D-1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi- 110065 to consider the 1. To approve the audited financial results for the quarter and year ended on 31st day of March, 2019. . Any other matter with the permission of the

available on Company's website www.kuwer.com and www.bseindia.com Date: 21.05.2019

APPENDIX - IV(Rule-8 (1)

and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for the amount due

Indian Bank

For Bhagawati Gas Ltd. Rakesh Samrat Bhardwaj Chairman & Managing Director

For and on behalf of the Board Fruition Venture Limited (Richa)

PAN: BQMPR4063F Registered Office: 2" Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street

Notice is hereby given that 02/2019-20 meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 28" May 2019 at 5:00 p.m. at

Company Secretary & Compliance Officer RAJASTHAN TUBE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 (1) (a) read with Regulation 29 of SEBI (Listing The said notice may be accessed on Company's

JINDAL LEASEFIN LIMITED

NOTICE Notice is hereby given that a meeting of the

http://www.bseindia.com. Managing Director

Website: www.pactindustries.com NOTICE

meeting of Board of Directors of the company scheduled to be held on Thursday, 30th May, 2019 at 11:00 a.m. at its Registered Office, inter-alia, t consider and approve, the Audited Financial results of the Company for the year ended 31stMarch, 2019. Thi intimation is also available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com) & MCX Stock Exchange (www.msei.in) where the company's securities are isted and on the website of the company

R.O.: D-1004, First Floor, New Friends Colony, CIN: L74899DL1993PLC056627 Tel. No. 011-26848636

Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on

The intimation contained in this notice is also For Kuwer Industries Limited Place: New Delhi

Tarun Aggarwal Joint Managing Director Din: 01320462

ANDHRA BANK S-7, Gamma Shopping Mall,